



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1438]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 2007/कार्तिक 30, 1929

No. 1438]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2007/KARTIKA 30, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2007

सं. 53 (आरई-2007)/2004—2009

का.आ. 1970(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004—2009 की अनुसूची-1 (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

2. आयात-निर्यात मर्दों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-1 (आयात) के परिशिष्ट 3 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

क्र.सं.	लागू बी आई एस मानक	उत्पादों का नाम
1	2	3
1.	आई एस 1165	दुग्ध पाउडर
2.	आई एस 1166	कन्डेन्सड मिल्क, पार्टली स्किम्ड और स्किम्ड कन्डेन्सड मिल्क
3.	आई एस 1656	मिल्क-सीरियल बेस्ड वीनिंग फूड्स
4.	आई एस 11536	शिशुओं के लिए प्रोसेस्ड सीरियल बेस्ड कम्पलिमेंट्री फूड्स
5.	12176	स्वीटनड अल्ट्रा हाई टैम्प्रेचर ट्रीटेड कन्डेन्सड मिल्क
6.	13334 (भाग 1)	स्किम्ड मिल्क पाउडर स्टैंडर्ड ग्रेड
7.	13334 (भाग 2)	स्किम्ड मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा ग्रेड
8.	14542	पार्टली स्किम्ड मिल्क पाउडर

1	2	3
9.	14433 (भाग 1)	इन्फैन्ट मिल्क सब्टीच्यूट, मिल्क प्रोटीन बेस्ड
10.	आई एस 13428	पैकेज्ड नैचुरल मिनरल वॉटर
11.	आई एस 14543	पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (पैकेज्ड नैचुरल मिनरल वॉटर को छोड़कर)
12.	आई एस 269	33 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट
13.	आई एस 455	पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट
14.	आई एस 1489	पोर्टलैण्ड पोन्जलाना सीमेंट—भाग 1
	(भाग 1 और भाग 2)	फ्लाय एश बेस्ड और भाग 2 कैल्साइन्ड क्ल बेस्ड
15.	आई एस 3466	मेसनरी सीमेंट
16.	आई एस 6452	स्ट्रक्चरल प्रयोग के लिए हाई एल्युमिना सीमेंट
17.	आई एस 6909	सुपर सल्फेटेड सीमेंट
18.	आई एस 8041	रेपिड हार्डनिंग पोर्टलैण्ड सीमेंट
19.	आई एस 8042	क्वाइट पोर्टलैण्ड सीमेंट
20.	आई एस 8043	हाइड्रोफोबिक पोर्टलैण्ड सीमेंट
21.	आई एस 8112	43 ग्रेड-आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट
22.	आई एस 8229	ऑयल बेल सीमेंट
23.	आई एस 12269	53 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट
24.	आई एस 12330	सल्फेट रिजिस्टिंग पोर्टलैण्ड सीमेंट
25.	आई एस 12600	लो हीट पोर्टलैण्ड सीमेंट
26.	आई एस 302	घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय उपकरणों की सुरक्षा—इलेक्ट्रिक आयन
	(भाग 2/खण्ड 3)	
27.	आई एस 302	घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय उपकरणों की सुरक्षा—इलेक्ट्रिक रेडिएटर्स
	(भाग 2/खण्ड 30)	

1	2	3	1	2	3
28.	आई एस 302 (भाग 2/खण्ड 201)	घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर		(भाग 1)	और अन्य रॉट स्टील फिटिंग : भाग 1 माइल्ड स्टील ट्यूबें
29.	आई एस 302 (भाग 2/खण्ड 202)	घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक स्टोव	46.	आई एस 4270	पानी के कूँओं (200 मी.मी. व्यास तक के) लिए प्रयुक्त स्टील ट्यूबें
30.	आई एस 418	टन्नास्टन फिलामेन्ट जनरल सर्विस इलेक्ट्रिक लैम्पस (100 वॉट तक)	47.	आई एस 1342	ऑयल प्रेशर स्टोव
31.	आई एस 694	100 वोल्ट तक और सहित वर्किंग वोल्टेज के लिए पीवीसी इन्सुलेटेड केबल्स	48.	आई एस 2787	मल्टी बर्नर ऑयल प्रेशर स्टोव
32.	आई एस 3854	घरेलू और ऐसे ही प्रयोजनों के लिए स्विच	49.	आई एस 10109	ऑयल प्रेशर स्टोव, ऑफसेट बर्नर टाईप
33.	आई एस 8828	विद्युतीय कलपुर्जे-घरेलू वस्तुओं और ऐसे ही इन्स्टलेशन्स के लिए ओवर करेन्ट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर्स	50.	आई एस 3470	हैक्सेन, फूड ग्रेड
34.	आई एस 9968 (भाग 1)	इलास्टोमर इन्सुलेटेड केबल्स (भाग 1) : 1100 वोल्ट तक और सहित वर्किंग वोल्टेज के लिए	51.	आई एस 3196 (भाग 1)	लो प्रेशर लिक्वीफाईएबल गैसों के लिए 5 लीटर पानी की क्षमता में अधिक वैल्वेड लो कार्बन स्टील गैस सिलेंडर : भाग 1 लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए सिलेंडर
35.	आई एस 12640 (भाग 1)	घरेलू वस्तुओं और ऐसे ही प्रयोगों के लिए रेजिडयूल करेन्ट अपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स (भाग 1) इन्ट्रेल ओवर करेन्ट प्रोटेक्शन के बिना सर्किट ब्रेकर्स (आर सीसीबी)	52.	आई एस 3196 (भाग 2)	लो प्रेशर लिक्वीफाईएबल गैसों के लिए 5 लीटर पानी की क्षमता से अधिक वैल्वेड लो कार्बन स्टील गैस सिलेंडर : भाग 2 एलपीजी के अलावा लिक्वी-फाईएबल गैसों के लिए सिलेंडर
36.	आई एस 12640 (भाग 2)	घरेलू वस्तुओं और ऐसे ही प्रयोगों के लिए रेजिडयूल करेन्ट अपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स (भाग 2) इन्ट्रेल ओवर करेन्ट प्रोटेक्शन के बिना सर्किट ब्रेकर्स (आर सीसीबी)	53.	आई एस 3196 (भाग 4)	लो प्रेशर लिक्वीफाईएबल गैसों के लिए 5 लीटर पानी की क्षमता से अधिक वैल्वेड लो कार्बन स्टील गैस सिलेंडर : भाग 4 टार्कसिक और कोरोसिव गैसों के लिए सिलेंडर
37.	आई एस 13010	ए सी वॉट-ऑर मीटर्स, वर्ग 0.5, 1 और 2	54.	आई एस 3224	लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों के अलावा कंप्रेस्ड गैस के लिए वाल्व फिटिंग
38.	आई एस 13779	ए सी स्टैटिक वॉट और मीटर्स, वर्ग 1 और 2	55.	आई एस 3745	छोटे मैडीकल गैस सिलेंडरों के लिए योक टाईप वाल्व कनेक्शन्स
39.	आई एस 14697	ए सी स्टैटिक ट्रान्सफार्मर अपरेटेड वॉट-आवर और वी ए आर-आर मीटर क्लास 0.25 और 0.55	56.	आई एस 7142	5 लीटर पानी की क्षमता में कम लो प्रेशर लिक्वीफाईएबल गैसों के लिए वैल्वेड लो कार्बन स्टील गैस सिलेंडर रिपिड्लेबल सीमलेस स्टील गैस सिलेंडर
40.	आई एस 15111 (भाग 1 और भाग 2)	सामान्य लाईट सेवाओं के लिए सैल्फ लैम्पस भाग 1 सुरक्षा आवश्यकताएं और भाग 2 निष्पादन आवश्यकताएं और भाग 2 निष्पादन आवश्यकताएं	57.	आई एस 7285 (भाग 1)	रिपिड्लेबल सीमलेस स्टील गैस सिलेंडर-विशिष्टीकरण भाग 1 : सामान्य स्टील सिलेंडर
41.	आई एस 8144	बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियाँ	58.	आई एस 7285 (भाग 2)	रिपिड्लेबल सीमलेस स्टील गैस सिलेंडर-विशिष्टीकरण भाग 2 : 1100 एमपीए (112 कं जीएफ/मिमी 2) से कम टेन्साइल स्ट्रेन्थ वाले क्वेन्च और टेम्पर्ड स्टील सिलिण्डर्स ।
42.	3055 (भाग 1)	क्लीनिकल थर्मामीटर : भाग 1 सॉलिड स्टैम टाईप	59.	आई एस 7302	ब्रीथिंग अपरेटर्स के साथ प्रयोग किए जाने के लिए गैस सिलिण्डर वाल्वज हेतु वाल्व फिटिंग्स ।
43.	3055 (भाग 2)	क्लीनिकल थर्मामीटर : भाग 2 संलग्न स्केल टाईप	60.	आई एस 7312	वैल्वेड और सीमलेस स्टील डिजाल्वड एसिटिलीन गैस सिलिण्डर
44.	आई एस 1161	संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टील ट्यूबें	61.	आई एस 8737	5 लीटर से ज्यादा पानी की क्षमता के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस
45.	आई एस 1239	माइल्ड स्टील ट्यूबें, ट्यूबूलर उत्पाद			

1	2	3
		सिलिण्डर के साथ प्रयोग के लिए वाल्व फिटिंग्स : नए विनिर्मित एलपीजी सिलिण्डर्स हेतु भाग 2 वाल्व फिटिंग्स।
62.	आई एस 8776	5 लीटर पानी की क्षमता तक और उसके सहित लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सिलिण्डर के साथ प्रयोग के लिए वाल्व फिटिंग्स।
63.	आई एस 9798	लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) मिक्चर्स के साथ प्रयोग हेतु लो प्रेशर रेगुलेटर
64.	आई एस 14899	आटोमोटिव प्रयोग हेतु लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस कन्टेनर्स।
65.	आई एस 15100	आटोमोटिव प्रयोग हेतु परमानेन्टली फिक्सड लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए मल्टीफंक्शन वाल्व असेम्बली।
66.	आई एस 7620 (भाग 1)	डायग्नोस्टिक मेडिकल एक्स-रे उपकरण।
67.	आई एस 14625	प्लास्टिक फीडिंग बाटल्स।
68.	10001	सामान्य उद्देश्यों हेतु कान्स्टेंट स्पीड कंप्रेशन इग्नीशन (डीजल) इंजन (20 किलोवाट तक)

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/एमओएनआई-5852/ए एम 03/पी सी-1ए]
आर.एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2007

No. 53 (RE-2007)/2004-2009

S.O. 1970(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2, 1 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, the Central Government hereby amends Schedule-I (Imports) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2004-09 as under :

2. The Appendix III to Schedule 1 (Imports) of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items shall be amended to read as follows :

Sl. No.	Applicable BIS Standards	Name of the Products
1	2	3
1.	IS 1165	Milk powder
2.	IS 1166	Condensed milk, partly skimmed and skimmed condensed milk
3.	IS 1656	Milk-cereal based weaning foods
4.	IS 11536	Processed cereal based complementary foods for infants

1	2	3
5.	12176	Sweetened ultra high temperature treated condensed milk
6.	13334 (Part 1)	Skimmed milk powder, standard grade
7.	13334 (Part 2)	Skimmed milk powder, extra grade
8.	14542	Partly Skimmed milk powder
9.	14433 (Part 1)	Infant milk substitute, milk protein based
10.	IS 13428	Packaged Natural Mineral Water
11.	IS 14543	Packaged Drinking Water (Other than Packaged Natural Mineral Water)
12.	IS 269	33 Grade Ordinary Portland cement
13.	IS 455	Portland Slag cement
14.	IS 1489 (Pt. 1 & Pt. 2)	Portland pozzolana cement-Part 1 Fly Ash based and Part 2 Calcined Clay based
15.	IS 3466	Masonry cement
16.	IS 6452	High alumina cement for structural use
17.	IS 6909	Super sulphated cement
18.	IS 8041	Rapid hardening Portland cement
19.	IS 8042	White Portland Cement
20.	IS 8043	Hydrophobic Portland Cement
21.	IS 8112	43 Grade Ordinary Portland cement
22.	IS 8229	Oil well cement
23.	IS 12269	53 Grade Ordinary Portland cement
24.	IS 12330	Sulphate resisting Portland cement
25.	IS 12600	Low heat Portland Cement
26.	IS 302 (Pt. 2/Sec. 3)	Safety of household and similar electrical appliances-Electric Iron
27.	IS 302 (Pt. 2/Sec. 30)	Safety of household and similar electrical appliances-Electric radiators
28.	IS 302 (Pt. 2/Sec. 201)	Safety of household and similar electrical appliances-Electric immersion water heater
29.	IS 302 (Pt. 2/Sec. 202)	Safety of household and similar electrical appliances-Electric stove
30.	IS 418	Tungsten filament general service electric lamps (upto 100 W)
31.	IS 694	PVC insulated cables for working voltages upto and including 1100 V
32.	IS 3854	Switches for domestic and similar purposes
33.	IS 8828	Electrical Accessories-Circuit Breakers for over-current

1	2	3	1	2	3
		protection for household and similar installations			liquefiable gases—Specification
34.	IS 9968 (Pt. 1)	Elastomer insulated cables (Pt. 1) : For working voltages upto and including 1100 V	54.	IS 3224	Part 4 Cylinders for toxic and corrosive gases
35.	IS 12640 (Pt. 1)	Residual current operated circuit breakers for household and similar uses—(Pt. 1) : Circuit breakers without integral over-current protection (RCCBs)	55.	IS 3745	Valve fittings for compressed gas cylinder excluding liquefied petroleum gas cylinders
36.	IS 12640 (Pt. 2)	Residual current operated circuit breakers for household and similar uses—(Pt. 2) : Circuit breakers with integral over-current protection (RCVOs)	56.	IS 7142	Yoke type valve connections for small medical gas cylinders
37.	IS 13010	AC Watt-hour meters, class 0.5, 1 and 2	57.	IS 7285 (Part 1)	Welded low carbon steel gas cylinder for low pressure liquefiable gases not exceeding 5 litre water capacity
38.	IS 13779	ac static watt-hour meters, class 1 and 2	58.	IS 7285 (Part 2)	Refillable Seamless steel gas cylinders—Specification—Part 1 : Normalized Steel Cylinders
39.	IS 14697	ac static transformer operated watt-hour and VAR-hour meters, class 0.2S and 0.5S			Refillable Seamless steel gas cylinders—Specification—Part 2 : Quenched and Tempered Steel Cylinders with Tensile strength less than 1 100 MPa (112 kgf/mm ²)
40.	IS 15111 (Pt. 1 & Pt. 2)	Self ballasted lamps for general lighting services Part 1 Safety requirements and Part 2 Performance requirements	59.	IS 7302	Valve fittings for gas cylinder valves for use with breathing apparatus
41.	IS 8144	Multipurpose dry batteries	60.	IS 7312	Welded and seamless steel dissolved acetylene gas cylinders
42.	IS 3055 (Part 1)	Clinical Thermometers : Part 1 Solid Stem Type	61.	IS 8737	Valve fittings for use with liquefied petroleum gas cylinders of more than 5 litre water capacity : Pt 2 Valve fittings for newly manufactured LPG cylinders
43.	IS 3055 (Part 2)	Clinical Thermometers : Part 2 Enclosed Scale Type	62.	IS 8776	Valve fittings for use with liquefied petroleum gas cylinder up to and including 5 litre water capacity
44.	IS 1161	Steel tubes for structural purposes	63.	IS 9798	Low pressure regulators for use with liquefied petroleum gas (LPG) mixtures
45.	IS 1239 (Pt. 1)	Mild steel tubes, tubular products and other wrought steel fittings : Part 1 Mild Steel Tubes	64.	IS 14899	Liquefied petroleum gas containers for automotive use
46.	IS 4270	Steel tubes used for water wells (upto 200 mm dia)	65.	IS 15100	Multifunction valve assembly for permanently fixed liquefied petroleum gas (LPG) containers for automotive use
47.	IS 1342	Oil pressure stoves	66.	IS 7620 (Pt 1)	Diagnostic Medical X-Ray Equipment
48.	IS 2787	Multi-burner oil pressure stoves	67.	IS 14625	Plastic Feeding Bottles
49.	IS 10109	Oil pressure stove, offset burner type	68.	10001	Constant speed compression ignition (diesel) engines for general purposes (up to 20 KW)
50.	IS 3470	Hexane, Food grade			
51.	IS 3196 (Pt 1)	Welded low carbon steel gas cylinder exceeding 5 litre water capacity for low pressure liquefiable gases : Pt 1 Cylinders for liquefied petroleum gas (LPG)			
52.	IS 3196 (Pt 2)	Welded low carbon steel gas cylinders exceeding 5 litre water capacity for low-pressure liquefiable gases : Pt 2 Cylinders for liquefiable gases other than LPG.			
53.	IS 3196 (Part 4)	Welded low carbon steel cylinders exceeding 5 litre water capacity for low pressure			

3. This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/Moni-5852/AM 03/PC-IA]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.